



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2013/अग्रहायण 8, 1935

No. 313]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2013/AGRAHAYANA 8, 1935

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2013

फा. सं. 5-90/2012/अभातशिप/अनुभव छूट.— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 8 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (समूह 'क' 'ख' तथा 'ग' पद) भर्ती विनियम, 2007 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है:

(1) इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (समूह 'क' 'ख' तथा 'ग' पद) (प्रथम संशोधन) भर्ती विनियम, 2013 कहा जाएगा तथा ये दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी माने जाएंगे।

(2) विद्यमान भर्ती विनियमों के कॉलम 13 में सहायक निदेशक के पद से संबंधित प्रावधान संशोधित किये गए हैं तथा उनके स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किए गए हैं:

“पदोन्नति:

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अथवा वरिष्ठ लेखा अधिकारी अथवा प्रणाली विश्लेषक प्रोग्रामर में से, जिन्होंने नियुक्ति के बाद ग्रेड में नियमित आधार पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

प्रतिनियुक्ति :

क (i) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालयों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पैतृक काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी अधिकारी ; अथवा

(ii) रू. 8000-13500 के वेतनमान में अपने पैतृक काडर/विभाग में नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा; तथा

ख निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले :

1. “किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा गणित अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग अथवा प्रबंधन व्यवहार विज्ञान सहित, वाणिज्य तथा व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र अथवा भेषजी अथवा इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी अथवा वास्तुकला और नगर आयोजना में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष।

अनुभव:

2. किसी संगठन में पर्यवेक्षी स्तर का चार वर्ष का व्यावसायिक अनुभव; अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अथवा उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों अथवा सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों में शिक्षण/अनुसंधान, शैक्षिक नियोजन अथवा प्रशासन अथवा विधिक मामलों में चार वर्ष का अनुभव ।

नोट : जिन व्यक्तियों के पास डाक्टोरल डिग्री और/अथवा प्रकाशित अनुसंधान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्ट लिखने का प्रमाण है उन्हें अधिमान दिया जायेगा । ”

डॉ. के. पी. आइजैक, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/162/13]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th November, 2013

F. No. 5-90/2012/AICTE/Exp. Relax.—In exercise of power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 23 read with sub-section (1) & (2) of Section 8 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby frames following Regulation amending the All India Council for Technical (Group ‘A’ ‘B’ & ‘C’ posts) Recruitment Regulations, 2007:

(1) These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Group ‘A’ ‘B’ & ‘C’ posts) (1st Amendment) Recruitment Regulation, 2013 and will deem to have come into force with effect from 1st April, 2013.

(2) The provisions contained in Column 13 of the existing Recruitment Regulations with relation to the post of Assistant, Director, shall stand amended and be substituted by the following provision:

“**Promotion:** From amongst Senior Administrative Officer or Senior Accounts Officer or System Analyst Programmer with five years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

Deputation: (a) (i) Officers from the Central or State Government or Universities or Autonomous bodies of PSUs holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with four years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs. 8000-13500 in the parent cadre/department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:

1. “Master Degree in any of the subjects of Science or Mathematics or Computer application or Management including Behavioral Science Commerce and Business Economics or Economics or Pharmacy or Engineering and Technology or Architecture and Town Planning from a recognized University or equivalent.

Experience:

2. Four years professional experience at Supervisory level in an organization; or four years experience in Teaching/Research, Educational Planning or Administration or in Legal matters in Central or State Government or University or other institutions of higher education or Autonomous Bodies set up by the Government.

Note: Preference will be given to persons holding Doctorate degree and/or published research work with evidence of writing the technical reports.”

Dr. K. P. ISAAC, Member Secy.

[ADVT. III/4/Exty./162/13]